

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड—(ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 435] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 1970/अग्रहायण 12, 1892

No. 435] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 1970/AGRAHAYANA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & INTERNAL TRADE

(Department of Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December 1970

S.O. 3892.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 18 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 638, dated the 10th February, 1969, in the following manner:—

In the said notification for the words "sixth month" the words "third month" shall be substituted.

[No. JS(RKD)/3037/70.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

(1903)

